



02-03-2020

प्रेस नोट

सीटीईटी जुलाई 2020 की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई |

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 05.07.2020 (रविवार) को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के 14 वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह परीक्षा पूरे देश में 112 शहरों में आयोजित की जाएगी। केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) जुलाई 2020 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 24.01.2020 से शुरू हो चुकी है।

यह सूचित किया जाता है कि कुछ प्रशासनिक कारणों के कारण, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को दिनांक 02.03.2020 (सोमवार) से 09.03.2020 (सोमवार) तक 23:59 बजे तक बढ़ा दिया गया है और शुल्क का भुगतान दिनांक 13.03.2020 (शुक्रवार) 15:30 बजे तक किया जा सकता है। उम्मीदवार द्वारा शुल्क के भुगतान का अंतिम सत्यापन दिनांक 16.03.2020 (सोमवार) 15:30 बजे तक किया जा सकता है। उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरण में ऑनलाइन सुधार की सुविधा, यदि कोई हो, दिनांक 17.03.2020 (मंगलवार) से 24.03.2020 (मंगलवार) तक सीटीईटी वेबसाइट यानी www.ctet.nic.in पर उपलब्ध होगी। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, यदि अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ उत्पन्न नहीं होता है, तो उम्मीदवारों को उप सचिव (सीटीईटी) CBSE से दिनांक 17.03.2020 (मंगलवार) से 24.03.2020 (मंगलवार) 10:00 बजे से 17:00 बजे तक के बीच शुल्क के भुगतान के प्रमाण अर्थात् ई-चालान की उम्मीदवार प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है, यदि ई-चालान के माध्यम से भुगतान किया गया है।

विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, भाषाएँ, पाठ्यक्रम, योग्यता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियां शामिल हैं, केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की आधिकारिक वेबसाइट www.ctet.nic.in पर उपलब्ध है। तदनुसार इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

निदेशक (सीटीईटी)

एवं

सचिव, सी.बी.एस.ई